



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2317]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 2012/अग्रहायण 9, 1934

No. 2317]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 30, 2012/AGRAHAYANA 9, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

[ आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग ]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2012

का.आ. 2811(अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

यूनानी से संबंधित उक्त अनुसूची के भाग-II में "बिहार" शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 3ख एवं इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् तथा दिल्ली शीर्षक से पहले निम्नलिखित शीर्षक एवं इससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

छत्तीसगढ़

(1)	(2)	(3)	(4)
"3सी पं. रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)	कामिल-ए-तिब्ब-ओ जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस.	6-4-2009 से आगे... यदि उन छात्रों को अनुदत्त की गई है, जिन्हें भारत सरकार की अनुमति से निम्नलिखित कॉलेज में प्रवेश दिया गया है, अर्थात्-मोहसिने मिल्लत यूनानी मेडिकल कॉलेज, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001 (रायपुर)"।

[फा. सं. वी. 12013/06/2011-इ.पी. (आई एम-2)]

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किया गया है :—

1. अधिसूचना सं.का.आ. 4068, तारीख 30 नवम्बर, 1979
2. अधिसूचना सं.का.आ. 2635, तारीख 18 सितम्बर, 1980
3. अधिसूचना सं.का.आ. 2323, तारीख 20 अगस्त, 1981
4. अधिसूचना सं.का.आ. 2314, तारीख 22 अगस्त, 1981
5. अधिसूचना सं.का.आ. 137, तारीख 24 दिसम्बर, 1981
6. अधिसूचना सं.का.आ. 638, तारीख 25 जनवरी, 1982
7. अधिसूचना सं.का.आ. 7661, तारीख 2 फरवरी, 1982
8. अधिसूचना सं.का.आ. 973, तारीख 20 फरवरी, 1982
9. अधिसूचना सं.का.आ. 354(अ), तारीख 6 मई, 1983
10. अधिसूचना सं.का.आ. 3550, तारीख 5 सितम्बर, 1983
11. अधिसूचना सं.का.आ. 804(अ), तारीख 11 नवम्बर, 1983
12. अधिसूचना सं.का.आ. 462(अ), तारीख 23 जून, 1984
13. अधिसूचना सं.का.आ. 1911, तारीख 17 अप्रैल, 1985
14. अधिसूचना सं.का.आ. 2745, तारीख 29 मई, 1985
15. अधिसूचना सं.का.आ. 3404, तारीख 5 जुलाई, 1985
16. अधिसूचना सं.का.आ. 4057, तारीख 14 अगस्त, 1985
17. अधिसूचना सं.का.आ. 5603, तारीख 2 दिसम्बर, 1985
18. अधिसूचना सं.का.आ. 5671, तारीख 5 दिसम्बर, 1985
19. अधिसूचना सं.का.आ. 888, तारीख 17 फरवरी, 1986
20. अधिसूचना सं.का.आ. 1832, तारीख 16 अप्रैल, 1986
21. अधिसूचना सं.का.आ. 627, तारीख 2 फरवरी, 1987
22. अधिसूचना सं.का.आ. 760, तारीख 25 फरवरी, 1987
23. अधिसूचना सं.का.आ. 1030, तारीख 30 मार्च, 1987
24. अधिसूचना सं.का.आ. 1946, तारीख 9 जुलाई, 1987
25. अधिसूचना सं.का.आ. 3186, तारीख 30 अक्टूबर, 1987
26. अधिसूचना सं.का.आ. 1697, तारीख 15 अप्रैल, 1988
27. अधिसूचना सं.का.आ. 1504, तारीख 22 अप्रैल, 1988
28. अधिसूचना सं.का.आ. 1041, तारीख 6 अप्रैल, 1989
29. अधिसूचना सं.का.आ. 1910, तारीख 21 जुलाई, 1989
30. अधिसूचना सं.का.आ. 2177, तारीख 14 अगस्त, 1989
31. अधिसूचना सं.का.आ. 2594, तारीख 21 सितम्बर, 1989
32. अधिसूचना सं.का.आ. 969, तारीख 29 नवम्बर, 1989
33. अधिसूचना सं.का.आ. 2552, तारीख 22 अगस्त, 1990
34. अधिसूचना सं.का.आ. 3246, तारीख 31 अक्टूबर, 1990
35. अधिसूचना सं.का.आ. 2669, तारीख 29 अगस्त, 1991
36. अधिसूचना सं.का.आ. 630, तारीख 17 जनवरी, 1992
37. अधिसूचना सं.का.आ. 1435, तारीख 7 मई, 1992
38. अधिसूचना सं.का.आ. 3110, तारीख 11 अक्टूबर, 1994
39. अधिसूचना सं.का.आ. 3375, तारीख 18 अक्टूबर, 1996
40. अधिसूचना सं.का.आ. 214, तारीख 9 जनवरी, 1997
41. अधिसूचना सं.का.आ. 923(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1997
42. अधिसूचना सं.का.आ. 518, तारीख 17 फरवरी, 1998
43. अधिसूचना सं.का.आ. 170(अ), तारीख 6 मार्च, 1998
44. अधिसूचना सं.का.आ. 1792, तारीख 25 जून, 1998
45. अधिसूचना सं.का.आ. 1793, तारीख 28 अगस्त, 1998
46. अधिसूचना सं.का.आ. 876(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1998
47. अधिसूचना सं.का.आ. 1020(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 1998
48. अधिसूचना सं.का.आ. 116(अ), तारीख 17 फरवरी, 1999
49. अधिसूचना सं.का.आ. 117(अ), तारीख 17 फरवरी 1999
50. अधिसूचना सं.का.आ. 303(अ), तारीख 6 मई, 1999
51. अधिसूचना सं.का.आ. 403(अ), तारीख 31 मई, 1999
52. अधिसूचना सं.का.आ. 378(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2000
53. अधिसूचना सं.का.आ. 820(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000
54. अधिसूचना सं.का.आ. 1008(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2000
55. अधिसूचना सं.का.आ. 116(अ), तारीख 7 फरवरी, 2001
56. अधिसूचना सं.का.आ. 486(अ), तारीख 30 मई, 2001
57. अधिसूचना सं.का.आ. 1017(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
58. अधिसूचना सं.का.आ. 1018(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
59. अधिसूचना सं.का.आ. 1019(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2001
60. अधिसूचना सं.का.आ. 1020(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
61. अधिसूचना सं.का.आ. 516(अ), तारीख 16 मई, 2002
62. अधिसूचना सं.का.आ. 951(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2002
63. अधिसूचना सं.का.आ. 1166(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2003
64. अधिसूचना सं.का.आ. 1180(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2003
65. अधिसूचना सं.का.आ. 1181(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2003
66. अधिसूचना सं.का.आ. 1289(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2003
67. अधिसूचना सं.का.आ. 131(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004
68. अधिसूचना सं.का.आ. 265(अ), तारीख 24 फरवरी, 2004
69. अधिसूचना सं.का.आ. 481(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2004
70. अधिसूचना सं.का.आ. 534(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2004
71. अधिसूचना सं.का.आ. 744(अ), तारीख 29 जून, 2004
72. अधिसूचना सं.का.आ. 984(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2004
73. अधिसूचना सं.का.आ. 191(अ), तारीख 8 फरवरी, 2005
74. अधिसूचना सं.का.आ. 1521(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2005
75. अधिसूचना सं.का.आ. 1679(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2005
76. अधिसूचना सं.का.आ. 1758(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2005

77. अधिसूचना सं.का.आ. 540(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2006  
 78. अधिसूचना सं.का.आ. 1368(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006  
 79. अधिसूचना सं.का.आ. 1472(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2006  
 80. अधिसूचना सं.का.आ. 1485(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006  
 81. अधिसूचना सं.का.आ. 1809(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2006  
 82. अधिसूचना सं.का.आ. 2017(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006  
 83. अधिसूचना सं.का.आ. 33(अ), तारीख 11 जनवरी, 2007  
 84. अधिसूचना सं.का.आ. 1135(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007  
 85. अधिसूचना सं.का.आ. 1175(अ), तारीख 10 जुलाई, 2007  
 86. अधिसूचना सं.का.आ. 1700(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2007  
 87. अधिसूचना सं.का.आ. 2185(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2008  
 88. अधिसूचना सं.का.आ. 2261(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2008  
 89. अधिसूचना सं.का.आ. 1190(अ), तारीख 11 मई, 2009  
 90. अधिसूचना सं.का.आ. 2217(अ), तारीख 27 अगस्त, 2009  
 91. अधिसूचना सं.का.आ. 2406(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009  
 92. अधिसूचना सं.का.आ. 3001(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2009  
 93. अधिसूचना सं.का.आ. 3121(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2009  
 94. अधिसूचना सं.का.आ. 1523(अ), तारीख 14 जून, 2010  
 95. अधिसूचना सं.का.आ. 1517(अ), तारीख 23 जून, 2010  
 96. अधिसूचना सं.का.आ. 1532(अ), तारीख 25 जून, 2010  
 97. अधिसूचना सं.का.आ. 1605(अ), तारीख 2 जुलाई, 2010  
 98. अधिसूचना सं.का.आ. 1973(अ), तारीख 6 अगस्त, 2010  
 99. अधिसूचना सं.का.आ. 2477(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010  
 100. अधिसूचना सं.का.आ. 2971(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010  
 101. अधिसूचना सं.का.आ. 1451(अ), तारीख 24 जून, 2011  
 102. अधिसूचना सं.का.आ. 1604(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011  
 103. अधिसूचना सं.का.आ. 1640(अ), तारीख 18 जुलाई, 2011  
 104. अधिसूचना सं.का.आ. 2680(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2011  
 105. अधिसूचना सं.का.आ. 2717(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2011  
 106. अधिसूचना सं.का.आ. 42(अ), तारीख 2 जनवरी, 2012  
 107. अधिसूचना सं.का.आ. 82(अ), तारीख 14 जनवरी, 2012  
 108. अधिसूचना सं.का.आ. 566(अ), तारीख 15 मार्च, 2012  
 109. अधिसूचना सं.का.आ. 565(अ), तारीख 16 मार्च, 2012

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2012

**S.O. 2811(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government, after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely :—

In Part II of the said Schedule relating to 'Unani', under the heading Bihar after serial number 3B and the entries relating thereto, and before the heading Delhi, the following heading and the entries shall be inserted namely :—

### CHHATTISGARH

(1)	(2)	(3)	(4)
3C "Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (Chhattisgarh)	Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	B.U.M.S.	from 6th April 2009 onwards- if granted to the students admitted with the permission of the Government of India in following college, namely :— Mohsine-Millat Unani Medical College and Hospital, Mahbubiya Chowk, Baijnath Para Raipur (Chhattisgarh) Pin 492001."

[F.No. V.12013/06/2011-EP(IM-2)]

BALA PRASAD, Jr. Secy.

**Note :** The Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970) has been amended vide the following notification numbers :—

1. S.O. No.4068 dated the 30th November, 1979
2. S.O. No.2635 dated the 18th September, 1980
3. S.O. No.2323 dated the 20th August, 1981
4. S.O. No.2314 dated the 22nd August, 1981
5. S.O. No.137 dated the 24th December, 1981
6. S.O. No.638 dated the 25th January, 1982
7. S.O. No.7661 dated the 2nd February, 1982
8. S.O. No.973 dated the 20th February, 1982
9. S.O. No.354(E) dated the 6th May, 1983
10. S.O. No.3550 dated the 5th September, 1983
11. S.O. No.804 (E) dated the 11th November, 1983
12. S.O. No. 462 (E) dated the 23rd June, 1984
13. S.O. No.1911 dated the 17th April, 1985
14. S.O. No.2745 dated the 29th May, 1985
15. S.O. No.3404 dated the 5th July, 1985
16. S.O. No.4057 dated the 14th August, 1985
17. S.O. No.5603 dated the 2nd December, 1985
18. S.O. No.5671 dated the 5th December, 1985
19. S.O. No.888 dated the 17th February, 1986
20. S.O. No.1832 dated the 16th April, 1986
21. S.O. No.627 dated the 2nd February, 1987
22. S.O. No.760 dated the 25th February, 1987
23. S.O. No.1030 dated the 30th March, 1987
24. S.O. No.1946 dated the 9th July, 1987
25. S.O. No.3186 dated the 30th October, 1987
26. S.O. No.1697 dated the 15th April, 1988
27. S.O. No.1504 dated the 22nd April, 1988
28. S.O. No.1041 dated the 6th April, 1989
29. S.O. No.1910 dated the 21st July, 1989
30. S.O. No.2177 dated the 14th August, 1989
31. S.O. No.2594 the 21st September, 1989
32. S.O. No.969 dated the 29th November, 1989
33. S.O. No.2552 dated the 22nd August, 1990
34. S.O. No.3246 dated the 31st October, 1990
35. S.O. No. 2669 dated the 29th August, 1991
36. S.O. No.630 dated the 17th January, 1992
37. S.O. No.1435 dated the 7th May, 1992
38. S.O. No.3110 dated the 11th October, 1994
39. S.O. No.3375 dated the 18th October, 1996
40. S.O. No.214 dated the 9th January, 1997
41. S.O. No.923(E) dated the 29th December, 1997
42. S.O. No.518 dated the 17th February, 1998
43. S.O. No.170(E) dated the 6th March, 1998
44. S.O. No.1792 dated the 25th June, 1998
45. S.O. No.1793 dated the 28th August, 1998
46. S.O. No.876(E) dated the 25th October, 1998
47. S.O. No.1020(E) dated the 1st December, 1998
48. S.O. No.116(E) dated the 17th February, 1999
49. S.O. No.117(E) dated the 17th February, 1999
50. S.O. No.303(E) dated the 6th May, 1999
51. S.O. No.403(E) dated the 31st May, 1999
52. S.O. No.378(E) dated the 13th April, 2000
53. S.O. No.820(E) dated the 12th September, 2000
54. S.O. No.1008(E) dated the 09th November, 2000
55. S.O. No.116(E) dated the 07th February, 2001
56. S.O. No. 486(E) dated the 30th May, 2001
57. S.O. No. 1017(E) dated the 8th October, 2001
58. S.O. No. 1018(E) dated the 8th October, 2001
59. S.O. No. 1019(E) dated the 9th October, 2001
60. S.O. No. 1020(E), dated the 8th October, 2001
61. S.O. No. 516(E)-dated the 16th May, 2002
62. S.O. No. 951(E) dated the 4th September, 2002
63. S.O. No. 1166(E) dated the 29th September, 2003
64. S.O. No.1180(E) dated the 7th October, 2003
65. S.O. No. 1181(E) dated the 7th October, 2003
66. S.O. No. 1289(E) dated the 4th November, 2003
67. S.O. No. 131(E) dated the 28th January, 2004
68. S.O. No. 265(E) dated the 24th February, 2004
69. S.O. No. 481(E) dated the 6th April, 2004
70. S.O. No.534(E) dated the 22nd April, 2004
71. S.O. No. 744(E) dated the 29th June, 2004
72. S.O. No. 984(E) dated the 2nd September, 2004
73. S.O. No. 191(E) dated the 8th February, 2005
74. S.O. No. 1521(E) dated the 20th October, 2005
75. S.O. No.1679 (E) dated the 25th November, 2005
76. S.O. No.1758 (E) dated the 10th December, 2005
77. S.O. No. 540 (E) dated the 13th April, 2006
78. S.O. No. 1368 (E) dated the 23rd August, 2006
79. S.O. No. 1472 (E) dated the 11th September, 2006
80. S.O. No. 1485 (E) dated the 12th September, 2006
81. S.O. No. 1809 (E) dated the 20th October, 2006.
82. S.O. No.2017 (E) dated the 23rd November, 2006
83. S.O. No.33 (E) dated the 11th January, 2007
84. S.O. NO.1135 (E) dated the 6th July, 2007
85. S.O. No.1175 (E) dated the 10th July, 2007
86. S.O. No.1700 (E) dated the 27th September, 2007

- |  |  |
|--|--|
| 87. S.O. No.2185 (E) dated the 8th September, 2008 | 99. S.O. No.2477(E) dated, the 8th October, 2010     |
| 88. S.O. No.2261(E) dated the 24th September, 2008 | 100. S.O. No.2971(E) dated, the 16th December, 2010  |
| 89. S.O. No.1190(E) dated the 11th May, 2009       | 101. S.O. No.1451(E) dated, the 24th, June, 2011     |
| 90. S.O. No.2217 (E) dated the 27th August, 2009   | 102. S.O. No.1604(E) dated, the 6th, July, 2011      |
| 91. S.O. No.2406(E) dated the 7th September, 2009  | 103. S.O.No.1640 (E) dated the 18th July, 2011       |
| 92. S.O. No.3001(E) dated the 25th November, 2009  | 104. S.O. No. 2680 (E) dated the 15th November, 2011 |
| 93. S.O. No.3121(E) dated the 5th December, 2009   | 105. S.O. No. 2717 (E) dated the 28th November, 2011 |
| 94. S.O. No.1523(E) dated the 14th June, 2010      | 106. S.O. No. 42 (E) dated the 2nd January, 2012     |
| 95. S.O. No.1517(E) dated the 23rd June, 2010      | 107. S.O. No. 82 (E) dated the 14th January, 2012    |
| 96. S.O. No.1532(E) dated the 25th June, 2010      | 108. S.O. No. 566 (E) dated the 15th March, 2012     |
| 97. S.O. No.1605(E) dated, the 2nd July, 2010      | 109. S.O. No. 565 (E) dated the 16th March, 2012.    |
| 98. S.O. No.1973(E) dated, the 6th August, 2010    |  |

4453 GE/12-2